



Geared for life

BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works :

20, K.M. Mathura Road, P.O.Box 328

P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA

Tel. : +91 (129) 4288888, E-mail : info@bglindia.com

Corporate Identity Number : L29130HR1971PLC034365

BGL/SEC/NSE/3/AUGUST 2021-2022

BGL/SEC/BSE/2/AUGUST 2021-2022

August 13, 2021

~~The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor
Plot No. C-1, G-Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051~~

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai-400001

SYMBOL: BHARATGEAR

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) on August 13, 2021.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Bharat Gears Limited

Prashant Khattry
Head (Legal) and Company Secretary



Encl: As above



Mumbai Office : 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA

Tel.: +91(22) 2283 2370, Fax: +91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com

Mumbra Works : Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA

Tel. : +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

www.bharatgears.com

OSWAL LEASING LIMITED
Regd. Office: 105, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001
CIN: L65910DL1983PLC016036, Phone: (011) 23313955, Fax: (011) 23316374
Email: oswal_leasing@oswnahar.com, Website: www.oswnahar.com

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (net)	3.49	3.95	4.14	18.79
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.37)	0.69	1.66	5.82
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.37)	0.69	1.66	5.82
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.37)	0.51	1.25	4.35
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(0.37)	0.51	1.25	4.35
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	50.00	50.00	50.00	50.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance sheet of previous year)				226.22
8	Earnings Per Share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised) Basic and Diluted (in Rs.)	(0.87)	0.10	0.25	0.87

Notes:
1. The Unaudited financial results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in their respective meetings held on 12.08.2021. The financial results have been subjected to Limited Review by Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on company's website (www.oswnahar.com).
3. For Oswal Leasing Limited Sd/- Harasees Kaur Manager cum CFO
Date: 12.08.2021 Place: New Delhi

Shree Rajasthan Syntex Ltd.
CIN: L24302RJ1979PLC001948
Regd. Office : 27-A, First Floor, Meera Nagar , Housing Board Colony, Udaipur-313001
Tel : 91-9314879380 ; Website-www.srsl.in ; E-mail - cs@srsl.in

Extract of Unaudited financial results for the Quarter Ended June 30, 2021 (Rs. in Lakhs, except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from Operation	1,034	1,280	538	3,822
2	"Net Profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)"	(537)	(480)	(750)	(2,415)
3	"Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after exceptional and/or extraordinary items)"	(537)	(480)	(750)	(2,415)
4	"Net Profit/ (loss) for the period after Tax (after exceptional and/or extraordinary items)"	(522)	(509)	(720)	(2,355)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)"				
6	Paid up Equity share capital	1,370	1,370	1,370	1,370
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)				(4,788)
8	Earnings Per Share in Rupees (Face Value of Rs 10/- each) (not annualised) 1. Basic (not annualised) 2. Diluted (not annualised)	(3.91) (3.91)	(3.51) (3.51)	(5.41) (5.41)	(17.62) (17.62)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the Quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on stock exchange website (www.bseindia.com) and on company's website (www.srsl.in).
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on August 12, 2021. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of above Financial Results.
3. The Second wave of COVID-19 pandemic took place during the quarter. The expected future impact of the COVID-19 may be different from the estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes in future economic conditions and assess the impact on its business.
4. The figures of the previous period / year have been re-grouped / re-arranged and / or recast wherever found necessary. By Order of the Board (Vikas Ladia)
Place: Udaipur Date: August 12, 2021 Managing Director & CEO (DIN: 00256289)

GANPATI PLASTFAB LIMITED
CIN: L25209RJ1984PLC003152
Registered Office: 334, Shekhawat Mansingh Block, Nemi Sagar Colony, Queens Road, Jaipur-302016, Rajasthan
Administrative Office: UL-7, Amber Tower, Sansar Chandra Road, Jaipur-302001, Rajasthan
Phone: -0141-4001716 Email ID: mail@gpl.co.in Website: www.gpl.co.in

Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for Quarter Ended June 30, 2021 (Rs. in Lacs) Except Earning Per Share

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	2972.09	2237.22	3340.29	10549.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	58.26	54.41	17.78	110.26
3	Net Profit / (Loss) for the period, before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	58.26	54.41	17.78	110.26
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	33.98	36.07	41.63	95.97
5	Total Comprehensive Income for the period	33.98	36.07	39.32	98.29
6	Equity Share Capital	266.06	266.06	266.06	266.06
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	1341.25
8	Earnings Per Share (Face Value Rs. 10/- per share) (Basic & Diluted)	1.28	1.35	1.47	3.61

Notes:
1. The Standalone Financials Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on August 12, 2021. 2. The above is an extract of the detailed format of Standalone Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of the stock exchange i.e. www.cse-india.com and on the Company website i.e. www.gpl.co.in.
3. For and on behalf of Board of Directors GANPATI PLASTFAB LIMITED Sd/- Ashok Kumar Pabwul Managing Director DIN: 00183513
Place: Jaipur Date: 12/08/2021

SKYBOX INDUSTRIES LIMITED
(Formerly known as Smart Capital Services Ltd.)
CIN: L74899DL1994PLC059877
Regd Off: 325, IIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110 085
Email id : smartcap.delhi@gmail.com, Website : www.smartcapitalservices.in
Ph No: 09599919919

Extracts of the Standalone Un-audited Financial Results For the Quarter ended June 30, 2021 (Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30/06/2021 (Un-audited)	31/03/2021 (Audited)	30/06/2020 (Un-audited)	31/03/2021 (Audited)
1	Total income from operations	32.60	714.93	58.29	1226.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	24.98	50.34	0.40	(20.26)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional &/or Extraordinary items)	24.98	50.34	0.40	(20.26)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional &/or Extraordinary items)	24.16	49.75	0.30	(20.62)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	24.16	49.74	0.30	(20.59)
6	Equity Share Capital	450.12	450.12	450.12	450.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	(366.84)	(366.84)	(364.16)	(366.84)
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing & discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted :	0.54 0.54	1.11 1.11	0.01 0.01	(0.46) (0.46)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Quarterly Financial Results are available on the website of the Company i.e. (www.smartcapitalservices.in) and website of the stock Exchange(s) (www.mseil.in).
2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 12/08/2021. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors of Skybox Industries Limited (formerly known as Smart Capital Services Ltd) Sd/- Rohit Mittal (Director) DIN: 02527072
Date: 12.08.2021 Place: New Delhi

RATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED
CIN: L45200GJ2006PLC048776
Regd. Office: S.F. 207, Turquoise, Panchvati Panch Rasta, Nr. White House E.B., C.G. Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India • Tel No : (079) 40056129
Email: cs@ratnagroup.co.in • Website: www.ratnagroup.co.in

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results For The Quarter Ended 30th June, 2021 (Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	
		30/06/2021 (Un-Audited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	2.10	405.70
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.11	96.81
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.11	96.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.11	72.92
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0.00	0.00
6	Equity Share Capital	1370.00	1370.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2104.96	2090.21
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted :	0.11 0.11	0.60 0.60

Notes:
a. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the company at www.ratnagroup.co.in
b. The Turnover is Rs. 47.93/-, Profit before tax is Rs. 14.72/- and Profit after Tax is Rs. 14.72/- on stand-alone basis.
For, Ratnabhumi Developers Limited
Kaivan J. Shah
Chairman and Managing Director
DIN: 01887130
Place: Ahmedabad Date: 12-08-2021

GARG ACRYLICS LTD.
Regd. Office : A-50/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052
CIN : L74999DL1983PLC017001
E-mail: gargacrylics@yahoo.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021 (Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		30-06-2021 (Unaudited)	31-03-2021 (Audited)	30-06-2020 (Unaudited)	31-03-2021 (Audited)
1	Total income from Operations	39158.23	40122.48	17784.39	126425.46
2	Net Profit before Tax	7111.63	3200.72	-2106.77	1530.21
3	Net Profit after tax & minority interest	5289.92	2697.78	-1922.91	1452.19
4	Total Comprehensive Income after Minority Interest (Comprising Net Profit and Other Comprehensive Income net of tax)	5327.81	2834.94	-1918.11	1603.75
5	Paid up Equity Share Capital	664.28	664.28	664.28	664.28
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (EPS)	79.63	40.61	-28.95	21.86
	Basic and Diluted Earning per share (Rs.) (not annualised)	79.63	40.61	-28.95	21.86

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for Quarter ended 30-06-2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website "www.mseil.in" and Company's Website "www.gargltd.com".
b) Key Standalone financial information is given below:-
Particulars (Rs. in Lacs)
Quarter ended 30-06-2021 (Unaudited) 31-03-2021 (Audited) 30-06-2020 (Unaudited) 31-03-2021 (Audited)
Income from Operations 39158.23 40122.48 17784.39 126425.46
Profit Before Tax 7111.93 3200.72 -2106.77 1530.22
Profit After Tax 5289.92 2697.8 -1922.91 1452.19
By order of the Board For Garg Acrylics Limited Sd/- Sanjiv Garg Managing Director (Din: 00217156)
Place: Ludhiana Date: 12th August, 2021

GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED
CIN: L67120WB1987PLC042960
Regd. Off:- 18, Ranindra sarani, Paddar Court, Gate no.4, Room no.17, Kolkata-700001 West Bengal
EMAIL :- goenkabusiness1987@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER 30th JUNE, 2021 (Rs. Lacs except EPS)

PARTICULARS	Quarter ending (30/06/2021)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30/06/2020)	previous year ended (31/03/2021)
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	26,492.71	1,067.52	18,649.45
Net Profit/ (Loss) from Ordinary Activities after tax	197.91	148.39	44.39
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	197.91	148.39	44.39
Equity Share Capital	1,300.01	1,300.01	1,300.01
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the balance sheet of previous year)	-----	-----	1,541.91
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (Before Extraordinary Items) Basic Diluted	1.52 1.52	1.14 1.14	0.34 0.34
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (After Extraordinary Items) Basic Diluted	1.52 1.52	1.14 1.14	0.34 0.34

NOTES:-
1. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 12th August, 2021.
2. The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant rules there under and in terms with regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) regulations 2015 and SEBI circular dated 5th July 2016.
3. The statutory Auditors of the company have carried out a "Limited Review" of the above result as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
4. Earning per share for the quarter and year ended has been calculated as per weighted average formula and diluted Earning per share has been calculated considering proposed issue of equity shares on account of conversion of convertible securities if any.
5. Previous period figures have been reclassified / regrouped wherever considered necessary to conform to the current period figures.
GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED Sd/- Mr. Yasin Gori Whole time Director DIN: 08221979
Place :- Ahmedabad Date: 12.08.2021

HOWARD HOTELS LIMITED
Regd. Off.: 20, Maurya Complex, B-28 Subhash Chowk, Laxmi Nagar, New Delhi-110092
Corp. Off.: Hotel Howard Plaza, Fatehabad Road, Agra-282001
CIN: L74899DL1989PLC038622 Tel: 0562-404-8600, Fax: 0562-404-8666
Email: info@howardhotelsltd.com, Website: www.howardhotelsltd.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (Rs. in lacs except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended	
		Jun-21	Jun-20
1	Total income from operations	30.39	1.85
2	Net Profit / (loss) for the period (before tax and exceptional items)	(35.34)	(47.66)
3	Net Profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(35.34)	(47.66)
4	Net Profit / (loss) for the period after tax	(35.34)	(47.66)
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)	(35.34)	(47.66)
6	Equity Share Capital (Paid Up)	911.32	911.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	NA	NA
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic : b) Diluted :	(0.39) (0.39)	(0.52) (0.52)

Notes:
(a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial results are available on the Company's website i.e. www.howardhotelsltd.com and on the stock exchange website i.e. www.bseindia.com. (b) The above financial results were reviewed by the Audit Committee of the Board and subsequently approved by the Board of Directors at its meetings held on 12th August, 2021. The results have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
For and on behalf of the Board of Directors Sd/- Nirvihar Nath Mittal (Whole Time Director) DIN-00536470
Place: Agra Date: 12.08.2021

BHARAT GEARS LIMITED
Regd. Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana)
Ph.: +91 (129) 4288888 Fax: +91 (129) 4288822-23
E-mail: info@bglindia.com Web: www.bharatgears.com CIN: L29130HR1971PLC034365



Geared for Life

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2021 (₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Previous year ended	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		(Unaudited)	(Audited) Refer Note 2	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations	16,468	17,403	4,926	50,303
2.	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	860	324	(1,542)	(965)
3.	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	860	324	(1,542)	(965)
4.	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	639	277	(1,314)	(770)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	670	383	(1,324)	(675)
6.	Equity share capital	931	931	931	931
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	6,450	6,450	7,027	6,450
8.	Earnings per share [Face value of ₹10/- each ("not annualised)] Basic and diluted (₹)	*6.87	*2.98	*(14.12)	(8.27)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarter ended 30 June, 2021 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended 30 June, 2021 Unaudited Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.bharatgears.com).
2. The figures of the quarter ended 31 March, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published year-to-date figures upto 31 December, 2020, which were subjected to limited review by statutory auditors.
3. Previous period's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.
For and on behalf of the Board of Directors Sd/- SURINDER PAUL KANWAR Chairman & Managing Director
Date : 12 August, 2021

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED
CIN : L65922DL1985PLC020853, Regd. Office : D2-11, Budh Vihar, Phase - I, New Delhi
E-mail : sns.prop.ltd@gmail.com Website : www.snsind.com

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2021 (Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	30.06.2021 (Un-Audited)	30.06.2020 (Un-Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
Total income from operations (net)	0.00	0.00	0.05	0.05
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(1.12)	(0.98)	(3.58)	(3.58)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(1.12)	(0.98)	(3.58)	(3.58)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(1.12)	(0.98)	(3.58)	(3.58)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))				
Equity Share Capital	99.42	99.42	99.42	99.42
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			(83.05)	
Earnings Per share (before/after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted	(0.11)	(0.10)	(0.36)	

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and amendments therein. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 are available on Company's website : www.snsind.com and also on the MSEI website : www.mseil.in.
2. The above Financial results have been duly reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in this respect in meeting held on August 12, 2021.
For SNS Properties and Leasing Ltd. Sd/- (Harwinder Kaur) Director
DIN : 08620530
Place: New Delhi Date: 12.08.2021

Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of SPACE TELEINFRA PRIVATE LIMITED (CIN: U64202DL2011PT0214407) having its Registered Office at 22A, Janpath, New Delhi - 110001
.....Applicant Company / Petitioner
NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 06th August, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of

